



## अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (उ.ज.) मुख्य/पूर्क/सेमेस्टर परीक्षा- 20..... HM No. 227.005

### परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

- उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही यह जांच ले कि मुख्य पृष्ठ सहित पृष्ठों की कुल संख्या 32 है। यदि कोई पृष्ठ खाल है या कम है तो कक्ष निरीक्षक/बैक्सक को अवश्य कहाँ लें।
- उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर दिये गये निर्णयित जाहह पर अपना अनुक्रमांक, नामावलन क्रमांक एवं अध्य अनुक्रमांक सावधानीपूर्वक, लिखें।
- उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ के भीतरी प्राप्त को खाली छोड़ दें एवं यहे पृष्ठ से उत्तर लिखना प्रांगण करें। प्रत्येक प्राप्त का उत्तर नये पृष्ठ से लिखना प्रांगण करें।
- मानविक्यार्थी/खालिकाएँ/उत्तर का संधिकार धरन को छोड़कर उत्तर लिखने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले नीली या काली स्थानों के बालं फेरे एवं यहे पृष्ठ से उत्तर लिखना प्रांगण करें।
- परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ कोई भी लिखित सामग्री और संबंधित विषय/प्रश्न पत्र से संबंधित पाठ्यपुस्तिका, नोट्स, कागज, अपने शरीर के किसी भी अंग या वस्त्र में लिखकर न लावें। अवश्य अनुक्रित सामग्र्य/उत्तर का प्रवर्तन मारा जावेगा।
- परीक्षा भवन में गोवाइल कोन, डिजिटल घड़ी/येन, साइटिकल कैस्कूलेटर आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपयोग, प्रतिवर्द्धित है।
- उत्तर पुस्तिका में पृष्ठे गये प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षक के लिए किसी भी प्रवर्तन का अनशील शब्द/वाक्य अथवा विक्री भी प्रवर्तन का प्रवर्तन दिनांक/निशान/संकेत अंकित न करें।
- परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अनुक्रमांक के अलावा कुछ भी न लिखें एवं काफ़ी कारण न करें।
- परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में शोधशक्ति/केन्द्रायास/उड़नवर्तन दल के अधिकारियों के अंदरूनी का उत्तर लावन करें एवं अनुशासित हों। परीक्षा संचालन से संबंधित किसी भी व्यक्ति से अपन्त्र अवहार न करें।
- परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखने में पृष्ठों का गेप न करें। उत्तर लिखने के बाद बचे रिक्त पृष्ठों को एक लिखी लाईन खीचकर निरस्त कर दें।
- परीक्षा प्रांगण होने के एक घण्टे के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जावेगी। उपयोग में लायी गयी पूरक उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं की संख्या अध्य उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ में निर्धारित स्थान पर अंकितरत्ता लिखें।
- परीक्षा समाप्त होने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका शीर्षक को सौंपने के बाद शीर्षक की अनुमति से ही कक्ष छोड़ें।
- परीक्षा समाप्त होने से पूर्व शीर्षक परीक्षार्थी द्वारा मुख्य पृष्ठ पर यही जानकारीयों जैसे-अनुक्रमांक/नामावलन क्रमांक/विषय/प्रश्न पत्र एवं प्रश्न पत्र का नाम आदि की जांच अवश्य कर लेवें।
- प्रश्न पत्र में पृष्ठे गये गुटियों के संबंध में यदि कोई शिकायत हो तो अपनी शिकायत परीक्षा समाप्ति के तुला आदि लिखित रूप में केन्द्रायास/बैक्स के बाहिर करके उत्तराभास को दें। परीक्षा का बहिर्भूत करने पर दोबारा योग्यता जाऊवान नहीं की जावेगी।
- यदि कठिका 2,3,4,5,6,7,8,11 एवं 12 का पालन नहीं किया जाता है तो वह अनुचित साथन का प्रकरण माना जायेगा।

### परीक्षा का नाम

अनुक्रमांक (अंकों में)	
Roll No.	
अनुक्रमांक (शब्दों में)	
Roll No.	

### B.A.-I

### प्रश्न पत्र

- परीक्षा का दिनांक :-.....
- प्रश्न पत्र का नाम :-.....
- परीक्षा का दिनांक :-.....
- दिन :- .....

- संलग्न पूर्क उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या :- .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
- परीक्षार्थी द्वारा हल किये गये प्रश्नों की संख्या :- .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

सेमेस्टर परीक्षा		
प्रश्न	प्राप्तांक क्रमांक (अंकों में)	प्राप्तांक क्रमांक (अंकों में)
खण्ड 'A' / SECTION "A"		
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	
5	5	
6	6	
7	7	
8	8	
योग प्राप्तांक (अंकों में)		
प्राप्तांक (शब्दों में)		
पूर्णक		

### परीक्षार्थियों को चेतावनी

अनुशासितना का प्रश्नन नहीं, निर्देशों का प्रश्नन न करने अवश्यक साधनों का प्रयोग करने के परिणाम स्थल पर ऐसे परीक्षियों को दड़स्तरवाल परीक्षाओं में सम्मिलित होने से तीन वर्ष तक के लिए विवेद किया जा सकता है। अपराधिक परीक्षीयों में होने पर भाद्रस. के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जावेगी।

केन्द्रायास के हस्ताक्षर की पुरुष

### परीक्षक का हस्ताक्षर

परीक्षक का हस्ताक्षर.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

परीक्षक का हस्ताक्षर.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

परीक्षक का हस्ताक्षर.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

परीक्षक का हस्ताक्षर.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....